



**पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार** **The Patent Office, Government Of India**  
**पेटेंट प्रमाण पत्र** **Patent Certificate**

(पेटेंट नियमावली का नियम 74) (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. 495535

आवेदन सं. / Application No. 202041025564

फाइल करने की तारीख / Date of Filing 17/06/2020

पेटेंटी / Patentee Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras)

आविष्कारकों का नाम / Name of Inventor(s) 1.CHESTER REBEIRO 2.NIKHILESH KUMAR SINGH

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित "METHOD AND ELECTRONIC DEVICE FOR MITIGATING MICRO-ARCHITECTURAL SIDE-CHANNEL ATTACK BY DYNAMIC RESOURCE ALLOCATION" नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख जून 2020 के सत्रहवें दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled "METHOD AND ELECTRONIC DEVICE FOR MITIGATING MICRO-ARCHITECTURAL SIDE-CHANNEL ATTACK BY DYNAMIC RESOURCE ALLOCATION" as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 17<sup>th</sup> day of June 2020 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख / Date of Grant : 06/01/2024 **Controller of Patents**

**टिप्पणी** - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, जून 2022 के सत्रहवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।  
**Note** - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 17<sup>th</sup> day of June 2022 and on the same day in every year thereafter.